



बिहार गजट

असाधारण अंक

बिहार सरकार द्वारा प्रकाशित

15 भाद्र 1934 (श0)
(सं0 पटना 462) पटना, बृहस्पतिवार, 6 सितम्बर 2012

सं0 वि0(27)पे0को0-200 / 2012-1380 / वि0

वित्त विभाग

प्रेषक,

आर0 के खंडेलवाल,

सचिव (संसाधन) ।

सेवा में,

सभी प्रधान सचिव

सभी सचिव

सभी विभागाध्यक्ष

सभी प्रमंडलीय आयुक्त ।

पटना, दिनांक 5 सितम्बर 2012

विषय:— वित्त विभाग के संकल्प सं0 242 पे0 को0, दिनांक 12.02.2008 द्वारा भविष्य निधि से अस्थायी/स्थायी (अप्रत्यर्पणीय) अग्रिम की स्वीकृति की शक्ति प्रत्यायोजित करने हेतु निर्गत स्पष्टीकरण में आंशिक संशोधन करने के संबंध में ।

महाशय,

उपर्युक्त विषयांकित मामले में निर्गत वित्त विभागीय परिपत्रांक 1166, दिनांक 09.08.2012 में सम्यक विचारोपरान्त निदेशानुसार निम्नांकित आंशिक संशोधन परिचारित किया जाता है:—

(i) उपरोक्त वित्त विभागीय परिपत्र की कंडिका (i), (ii) एवं (iii) में अंकित "के बीच रखा गया" शब्दों को विलोपित किया जाता है ।

(ii) यथोक्त परिपत्र में एक अतिरिक्त कंडिका – (vi) इस प्रकार जोड़ा जाता है:-

कंडिका – (vi) अखिल भारतीय सेवाओं के वैसे पदाधिकारी, जो सचिव के न्यून स्तर के पदधारी है, को अस्थायी/स्थायी अग्रिम की स्वीकृति उनके विभागीय सचिव/प्रधान सचिव द्वारा प्रदान की जायेगी ।

(iii) उपरोक्त वित्त विभागीय परिपत्र में प्रावधानित अन्य शेष उपबंध यथावत रहेंगे ।

विश्वासभाजन,

आर० के० खंडेलवाल,

सचिव (संसाधन) ।

अधीक्षक, सचिवालय मुद्रणालय,

बिहार, पटना द्वारा प्रकाशित एवं मुद्रित।

बिहार गजट (असाधारण) 462-571+10-डी०टी०पी०।

Website: <http://egazette.bih.nic.in>